



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 550 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 (ई०)

---

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

-----  
अधिसूचना  
10 जुलाई, 2019

संचिका संख्या -07/ कृ०स्था०- 14/2016 1630-- जनसेवक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली (अधिसूचना सं०-3249 दिनांक-05.11.2012) में जनसेवकों की प्रोन्नति झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा की कोटि-1(शष्य) में किये जाने का प्रावधान है, जबकि कृषि अधीनस्थ सेवा की नियमावली (अधिसूचना सं०-2822 दिनांक-27.07.2015 की कंडिका-5) में जनसेवकों की प्रोन्नति कृषि अधीनस्थ सेवा के सभी कोटियों में किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में दोनों नियमावली में उत्पन्न विरोधाभास को दूर करने हेतु अधिसूचना सं०-2822 दिनांक-27.07.2015 की कंडिका-5 को विलोपित किया जाता है।

2. उक्त विलोपन के साथ-साथ सभी कोटियों की प्रोन्नति के प्रावधान को पूर्णतया स्पष्ट करने हेतु अधिसूचना सं०-820 दिनांक-10.03.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 के नियम 6.2 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“कृषि अधीनस्थ सेवा की कोटि-1(शस्य) की शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रोन्नति के माध्यम से भरी जायेंगी। कोटि-1(शस्य) को छोड़कर अन्य कोटियों की 50 प्रतिशत रिक्तियाँ उन कोटियों के नियम 5 में वर्णित पदों के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पदों (लिपिकीय सेवा को छोड़कर) के अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रोन्नति के द्वारा भरी जायेंगी। उक्त प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी।”

3. अधिसूचना सं०-820 दिनांक-10.03.2014 द्वारा अधिसूचित उक्त नियमावली के नियम-5 के क्रमांक-4 जिसमें कृषि निदेशक को माप तौल एवं विपणन (कोटि-8) का नियुक्ति प्राधिकार बनाये जाने का प्रावधान है, को विलोपित किया जाता है।

4. झारखण्ड कृषि अधीनस्थ सेवा के संबंध में Feeder Posts की स्थिति निम्नवत है :-

- (i) कोटि-1 (शस्य) अन्तर्गत प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पद **जनसेवक/ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता** का है।
- (ii) कोटि-2 (कृषि अभियंत्रण) अन्तर्गत कनीय अभियन्ता के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पद **संधापक** का है।
- (iii) कोटि-3 (कृषि रसायन) में ग्रेड पे रु. 4200/- से नीचे के पद स्वीकृत नहीं है।
- (iv) कोटि-5 (पौधा संरक्षण) अन्तर्गत पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष पद के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पद **पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक** का है।
- (v) कोटि-7 (उद्यान) अन्तर्गत अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष पद के ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पद **उद्यान निरीक्षक** का है।
- (vi) कोटि-9 (सांख्यिकी) अन्तर्गत सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष पद से ठीक नीचे स्तर एवं समकक्ष पद **सांख्यिकी संगणक** का है।

5. अधिसूचना सं०-820 दिनांक-10.03.2014 एवं अधिसूचना सं०-2822 दिनांक-27.07.2015 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राजदीप संजय लाल जॉन,**  
निदेशक प्रशासन, कृषि।

-----